



सं. केमाशिबो/भर्ती प्रकोष्ठ/1(1)/2018/10884-10984

दिनांक 03.07.2018

अधिसूचना

कैडर समीक्षा समिति की सिफ़ारिशों, दिनांक 25.06.2018 को आयोजित बोर्ड की वित्तीय समिति बैठक में आइटम सं. IX के अनुमोदन और दिनांक 28.06.2018 को आयोजित शासी निकाय द्वारा अपनी बैठक में इसके अनुसमर्थन करने और बोर्ड के नियंत्रण प्राधिकारी, मा.सं.वि.मंत्रा. के सचिव(एसई एवं एल) के अनुवर्ती अनुमोदन के फलस्वरूप, निम्नलिखित संशोधनों को प्रशासनिक कैडर में शामिल किया गया है:-

- i) अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए कार्यपालक सहायक की वरिष्ठता सहायक के साथ मिला दी जाती है। अतः कार्यपालक सहायक के 65 पदों को 182 सहायक के पदों में विलय किया जाएगा। वरिष्ठ सहायक के रूप में नामपद्धति परिवर्तित होगी। कार्यपालक सहायक के भर्ती नियम वरिष्ठ सहायक की सीधी भर्ती में लागू रहेंगे। वरिष्ठ सहायक के पद के लिए भर्ती की विधि 75% पदोन्नति द्वारा और 25% सीधी भर्ती के आधार पर होगी।
- ii) (पी बी-2 के रु. 9300-34800+ जी पी रु. 4600/-) पे लेवल- 7 में स्वागत अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) के विद्यमान पदों को कैडर के पद क्रम को युक्तिसंगत करने के लिए प्रशासनिक कैडर के सहायक सचिव के रूप में पे लेवल-11 (पीबी-3 रु. 15600-39100+ जीपी रु. 6600/-) में उन्नयन किया जाएगा और बोर्ड के सहायक सचिव के विद्यमान भर्ती नियमों के आधार पर भरे जाएंगे।
- iii) सहायक सचिव (सतर्कता) के विद्यमान पद को सहायक सचिव के पद के प्रशासनिक कैडर में विलय कर दिया जाएगा और बोर्ड के सहायक सचिव के विद्यमान भर्ती नियमों के आधार पर भरा जाएगा। विद्यमान सहायक सतर्कता अधिकारी को सहायक सचिव (सतर्कता) के पद पर पदोन्नत किया जाएगा और सहायक सतर्कता अधिकारी (एवीओ) के पद को अनुभाग अधिकारी में अंतरित कर दिया जाएगा और प्रशासनिक कैडर में विलय कर दिया जाएगा।
- iv) पुनः गठित प्रशासनिक कैडर इस प्रकार होगा:-

वैतनमान सहित पद नाम	पद की विद्यमान संख्या	परिशोधित स्वीकृत पद	भर्ती की विधि	कार्यकाल अवधि (पदोन्नति के लिए)
संयुक्त सचिव लेवल- 13 (पी बी-4 37400-67000+ ग्रे पे रु. 8700/-)	12	15	75% प्रतिनियुक्ति द्वारा 25% पदोन्नति द्वारा	नियमित आधार पर लेवल- 12 में पाँच वर्ष की सेवा सहित उप सचिव
उप सचिव लेवल-12 (पी बी-3 रु. 15600-39100+ ग्रे पे रु. 7600/-)	20	24 (उप सचिव (एफ एंड ए) के पद समेत)	100% पदोन्नति	नियमित आधार पर लेवल- 11 में पाँच वर्ष की सेवा सहित सहायक सचिव
सहायक सचिव लेवल-11 (पी बी-3 रु. 15600-39100+ ग्रे पे रु. 6600/-)	56	68	75% पदोन्नति द्वारा तथा 25% सीधे भर्ती द्वारा	प्रवेश ग्रेड में स्थायीकरण सहित नियमित आधार पर पे लेवल- 7 में पाँच वर्ष की सेवा के साथ अनुभाग अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी (विधि)
अनुभाग अधिकारी 7 वें सीपीसी लेवल-7 (पी बी-2 रु. 9300-34800+ ग्रे पे रु. 4600/-)	128	129	100% पदोन्नति द्वारा	प्रवेश ग्रेड में स्थायीकरण सहित नियमित आधार पर पे लेवल 6 में चार वर्ष की सेवा के साथ अधीक्षक/अधीक्षक (विधि)



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

अधीक्षक 7 वें सीपीसी लेवल-6 (पी बी-2 रु. 9300-348100 + ग्रे पे रु. 4200/-)	188	188	100% पदोन्नति द्वारा	स्थायीकरण सहित लेवल 4 में चार वर्ष की नियमित निरंतर सेवा के साथ वरिष्ठ सहायक
वरिष्ठ सहायक 7 वें सीपीसी लेवल-4 (पी बी-1 रु. 5200-20200+ ग्रे पे रु. 2400/-)	247 (182 सहायक +65 कार्यपालक सहायक)	216	75% पदोन्नति द्वारा तथा 25% द्वारा	स्थायीकरण सहित लेवल -2 में चार वर्ष की नियमित निरंतर सेवा के साथ कनिष्ठ सहायक/सहायक रिकॉर्ड कीपर
कनिष्ठ सहायक 7 वें सीपीसी लेवल-4 (पी बी-2 रु. 5200-20200+ ग्रे पे रु. 1900/-)	234	200	85% सीधे भर्ती से 10% चयन द्वारा और 5% वरिष्ठता सह योग्यता	बोर्ड द्वारा पहले ही अपनाये डीओपीटी के आरआर मॉडल के आधार पर

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

हस्ता/-

(अनुराग त्रिपाठी)

सचिव

वितरण:

1. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
2. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक के.मा.शि.बो. वरिष्ठ निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (आईटी)/वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी/आईएफए के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
4. बोर्ड के सभी क्षेत्रीय अधिकारी/ उल्कृष्टता केंद्र
5. अनुभाग अधिकारी के स्तर बोर्ड के सभी अन्य अधिकारी
6. अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड कर्मचारी कल्याण संघ
7. स्क्रेप फाइल/ नोटिस बोर्ड